

August 30, 2024

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400051

NSE Symbol: CSLFINANCE

BSE Limited

Corporate Relationship

Phiroze, Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

BSE Scrip Code: 530067

1

Department

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")—Newspaper Publication.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the Newspaper Advertisement published on August 30, 2024 in 'Business Standards' - English edition and 'Business Standards' - Hindi edition intimating the Notice of 32nd Annual General Meeting of the Company, to be held on Saturday, September 21, 2024 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), Book Closure, Record date, E-voting and other related matters.

Kindly take note on record acknowledgement receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CSL Finance Limited

Ashok Kumar

Kathuria/

Digitally signed by Ashok Kumar Kathuria Date: 2024.08.30 11:20:11 +05'30'

Ashok Kumar Kathuria

(Director)

DIN-01010305

CSL Finance Limited

CIN: L74899DL1992PLC051462

Read. Office: 410-412.18/12. 4th Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi -110005

Tel: 0120-4290650, Email: investor@cslfinance.in, Website: www.cslfinance.in Notice is hereby given that the Thirty- Second (32") Annual General Meeting ('AGM') of CSI Finance Limited ('Company') will be held on Saturday, September 21, 2024 at 12:30 p.m. (IST through Video Conferencing ('VC') Other Audio Visual Means ('OAVM') facility provided by Nationa

© CSL Finance Limited

Securities Depository Limited (NSDL) to transact the business set out in the Notice of AGM The Company has sent the Notice of 32rd AGM and Annual Report on Thursday, August 29, 2024 through electronic mode to the members whose email ID's are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent or with Depository Participants in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013; SEBI (LODR) Regulations, 2015; General Circular dated September 25, 2023 read with other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) on the matter and circulars dated October 07, 2023 of Securities and Exchange Board of India (SEBI). The copy of the Annual Report and AGM notice is also available on the Company's website at www.cslfinance.in, website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL a www.evoting.nsdl.com.

Instructions for Remote E-voting and E-Voting

n accordance with Section 108 of the Companies Act,2013 read with rule 20 of Companies Management and Administration) rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 11(1) of the SEBI(LODR) Regulations, 2015; the Company has provided its members the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act. 2013 read with rule 10 or Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 42 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 the registrar of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 15, 2024 (Sunday) to September 21, 2024 (Saturday) (both days inclusive for the purpose of the 32nd AGM of the Company and for determining the entitlement of Final Dividend for the year ended March, 2024.

The Board has recommended the Final Dividend @Rs. 2.5 per share at its Board meeting held or May 15, 2024. The dividend if declared, at the Annual General Meeting will be paid to those directors whose name is appear on the Registrar of Members of the Company at the closure of ousiness hours of September 14, 2024 (Record Date).

The details as required under the aforesaid provisions are given under:

Date and Time of Commencement of remote e-voting: September 17, 2024 at 09:00 a.m

- The remote e-voting end shall end on September 20, 2024 at 05:00 p.m. A person whose name is recorded in the register of members and register of beneficia owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., September 14, 2024 only
- shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the general meeting.

 Any person who acquire shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM should know the same procedure for e-voting a mentioned in the notice of Company.
- Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on September 20 2024. The e-voting Module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC/OAVM mode, but shall not be entitled to vote again Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote though e-voting at the AGM.
- For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 32rd AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) and e-voting user manual for members available at the HELP section of www.evoting.nsdl.com or may write evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manage NSDL or Mr. Amit Vishal. Assistant Vice President - NSDL at evoting@nsdl.co.in.
- The Company has appointed Ms. Jasvinder Kaur, Practicing Company Secretary (COP 7700), Ghaziabad as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner

he results of the resolutions shall be declared within two working days of the conclusion of the AGM. Results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company www.csifinance.in on Stock Exchanges website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the website of NSDL i.e., www.evotingindia.com

By order of the Board of Directors of **CSL Finance Limited** Preeti Gupta

(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 30.08.2024 Place: Noida

विपुल लिमिटेड

V CIN No.: L65923DL2002PLC167607 Vipul

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर, दिल्ली-110017 कॉरपोरेट कार्यालयः विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुझगाँव-122009 दूरभाष सं.: 0124-4065500, वेबसाइटः www.vipulgroup.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

अजिया वापिक साधारण बदक का सूचना समाधार पत्र में दिनांक 13 अगस्त, 2024 को फूबिना माना पत्र में दिनांक 13 अगस्त, 2024 को फ्रिक्शित हमारे विज्ञापन के संबंध में आगे एतदहारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, के साथ पिठत कॉरपोरेट कार्य मंत्रात्वय (प्रमसीए) साधारण परिपन्न नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, "कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों द्वारा साधारण एपं विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टिकरण के संबंध में", नं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, नं. 20/2020 दिनांक 13 जनवरी, 2021, नं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, नं. 02/2022 दिनांक 5 02/20/21 विनाक 13 जनवर्ग, 2001, न. 21/20/21 विनाक 14 विसंबर, 20/21, न. 02/20/22 विनाक द मई, 20/22, न. 10/20/22 दिनांक 28 दिसम्बर, 20/22 तवा नवीनतम के रूप में 09/20/23 दिनांक टें सितम्बर, 20/23, "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज्जुखल साधनों (ओएपीएम) के जिए वार्षिक साधारण बैठक (प्जीएम) के आयोजन पर स्पष्टिकरण" के संबंध में, 'जिस्ते सामृद्धिक पर से एमसीए परिचन कह गया है) के प्रावचानों के अनुपानन के तहत्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य औडिखो-विज्जुब्त साधनों (ओएपीएम) के जिए विमुत्त लिमिटेड (कंपनी) की 33वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 क् रोपहर 12.00 बजे आयोजित की जाएगी, कंपनी एक सामान्य ख्यत पर सदस्यों की मीतिक रूप से उपस्थिति के बगैर बीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडिया-विजुजत साचनों (ओएबीएम) के जरिए 33वीं वार्षिक साचारण तेक (एजीएम) बुलानों जा रही है। इसके अलाला, मारतीय प्रतिसृति एवं विनिम्म बाई (सेवी) ने परियन से सेवी, एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 विनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2, तीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 सीआइआ,प्रांग/2021/11 विनाक 15 जनवरी, 2021, संबा/एचआ/इआएवर(सीप)(सीआइआर/2022/0005) विनांक 13 महें, 2022, देवी/एचओ/सीआइऑ,प्रांग/2023/10वी विनांक 15 जनवरी, 2023 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी-मीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 (सेबी पिएस) तथा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपजों के मार्कत सेबी परिपजों तथा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपजों के मार्कत सेबी (स्वीचेक्प) वाजवार्ग तथा कुछ प्रावधानों के अनुपालन से रियायत प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों, सूचीकरण विनियम के अनुपालन से रियायत प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों, सूचीकरण विनियम नुपालन सारवायत प्रदान का ग्रह हा कपना आधानवन, 2013 (आधानवन) के प्रावचाना, सूचाकरण वानवन इथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम सुविधा के जिरिए कंपनी की 33वीं एजीएम का आयोज केया जाना है, जिसके लिए एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है उदस्यगण् सिर्फ वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं तथा उसमें भागीदारी कर सकते हैं जीएम के लिए मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी यूनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेवी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेवी सूचीकरण विनियम) तथा एमसीए एवं सेवी परिपत्नों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की 33वीं एजीएन वीसी) ओएपीएम सूचिया के जरिए संवोत्तित की जा रही है, जिसके तिए एक साधारण स्थल पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएपीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित एवं माग ले नकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीए

5 माध्यम से बेठक गंभानिका होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। 1ई के प्रतिवेदन, निगमित अमिशासन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण म्मितित वार्षिक प्रतिवेदन के साथ कथित सूचना सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर मेज दिए ाए हैं तथा वह कंपनी की वेबसाइट www.vipularoup.in के साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

ाए ह तथा वह कंपना का वस्ताहर www.vipuigroup.in क साथ नशनल स्वस्ताराजा हिपाजिटरा (लाग-ह ('एनएस्हरीएन)' की वेबताहर www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। हो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सुर्थीकरण विनियम के विनियम 44 के अनुपालन में एनएसस्हीएत हारा प्रदत्त हलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('सिरोट' ई-वोटिंग') का प्रयोग कर सदस्यों को पहिणोस्म सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तायों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है तथा इन वोटिंग के जिरए व्यवसायिक पहलुओं का निर्धारण किया जा सकता।

एवडा अपने को ने हैं है ऐसी हुने चार के जोस्ट्र व्यवस्थायक उन्हेंजुक का निवारण का जो तर्वा की स्विचार मोनीट ई-वीटिंग की अवधि **गुरुवार, 19 सितारबर, 2024 को मुंबह 9,00 को आरम्म होगी एवं रविवार, 2 सितान्बर, 2024 को अपराहन 5,00 बजे समाप्त होगी।** कथित तिथि एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग ही अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपना बोट डाल दिए जाने के बाद उन्हें उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के समाप्त होने पर संबंधित सेवा बंद क

करियां है। इस किस में किस किस किस के जिए बोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध रहेगी तथा वीसी, ओएबीएम की सुविधा के जिए एजीएम में उपस्थित रहने वाले सदस्यों तथा रिमोट ई-वोटिंग के जिए प्रस्तावें पर अपना बोट नहीं डाला है तथा ऐसा करने के लिए उन पर पास्वी नहीं तभी है, वे एजीएम में ई-वोटिंग पाली के जिरए बोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के जिए उपस्था वोट डाल चुके सदस्य एजीएम में उपस्थित

हो सकते हैं परंतु वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों का बोटाधिकार सोमवार, 16 सिताबर, 2024 ('अंतिम तारीख') को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के समानुपात के आवार पर होगा। कोई भी व्यक्ति अंतिम तारीख को कंपनी का सदस्य हैं वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के जरिए एजीएम सुबना में निर्धारित समी प्रस्तावों पर ग्रेट डालने के योग्य होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी का सदस्य बन

र एवं अतिम तारीख को शेयर घारण रखते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर लॉग इन आईडी वं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, कोई व्यक्ति अगर रिगोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के हाथ पंजीकृत हैं, तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरगॉट युजर डिटेल्स/पासर्वड का इस्तेमाल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल से नीचे उल्लेखित टोल फ्री सं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं। तोना इन आईडीपुजर आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने की विस्तृत पद्धति एजीएम की सूचना में भी उपलब्ध है, बो कंपनी की वेबसाइट यानी www.vipulgroup.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting

@nsdl.com पर उपलब्ध है।

शांडिया-राजिया के पार्चिया के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर कृपया www.evoting@nsdl.com हा डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरघारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा फ्रिक्वेंटली आस्कड बवेशचन्र एफएक्यू) देखें अथवा एनएसडीएल की टोल फ्री नं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क क थवा voting@nsdl.co.in पर ईमेल करें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत रहने पर सदस्यगण श्री श्रवण मंगला टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से ईमेल आईडी nfo@masserv.com, दूरमाग सं: 011-26387281-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव कं INTO@masserv.com, दूरमाम सं: ४०११-२०५४/२४१-४५३ पर सम्यक कर संकत ह अथदा कपना सावव क secretarial@vipulgroup.in पर ईरीन भेज सकते हैं। एतद्वारा पुनः सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ९१ तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता

न्रण["]जरूरत) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत[े]एजीएम के उद्देश ाह्म अर्थार्थिक परितर्गित होने कंपनी की अंतरण पुस्तिका सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 से सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी। साधारण तीर पर, बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान के योग्य सदस्य अपनी जगह पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रतिनिधि को सदस्य होना आयश्यक नहीं है। चूंकि

नवदान करने के लिए आतमाब निर्मुक्त कर सकते हैं तथा आतानाव को सदस्य होना जायरवर नहीं है। यूक्क उपरांक्त परिपत्रों के अनुसार वीसी/आएवीएम के जरिए एजीएम के आयोजन होने के कारण नदियों की नियुक्ति की रूप से उपरिवर्धित की जरूरत नहीं है। फलस्वरूस, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी तथा अतएय प्रतिनिधिद्य प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्धी यहां संलग्न नहीं किया गया है। इस सुचना के जारी किए जाने से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुक्क का मुगतान किए सुचना में उल्लेखित संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होंगे। इस दस्तावेजों का निरीक्षण

करने के इच्छुक सदस्य secretarial@vipulgroup.in पर ईमेल भेज सकते हैं। खाते के तंबंध में अथवा एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी मांगने वाले सदस्यों से सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 अथवा उससे पहले कंपनी के पास secretarial@vipulgroup.in पर मेल के जरिए लिखने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी द्वारा उपयुक्त रूप स उसका उसर विया जाएगा। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपने लाभांश अधिपत्र को जिन सदस्यों ने अब तक नहीं भूनाया है उनसे अपने लाभांश क

तुर्वाचा करने के लिए कंपनी के पंजीकृत अथवा कारपोरेट कार्यालय के सेक्टोरियल डिपार्टमेंट में पत्राचार करने का अनुरोध किया जाता है। 30 सितम्बर, 2023 तक यानी अंतिम वार्षिक साधारण बैटक की तारीख तक दावारहित लामांश का विरायण कंपनी को वेस्ताइट www.vipulgroup.in के नियंशक डंड में उपलब्ध में सदस्य ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को 22 सितम्बर, 2017 को आयोजित कंपनी की पार्षिक साधारण बैठक में घोषित अंतिम लाभांश जो अभक्त लाभांश में इस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की

अवधि के लिए कंपनी के पास दावारहित के रूप में पड़ी हुई उस राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ने इस्तांतरण की आवश्यकता होगी। प्तमी सदस्यों से अपने ई-मेल एड्रेस कंपनी के पास पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है। हरित पहल वे समर्थन में कंपनी आपको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी तथा दस्तावेज आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेगी। ई-मेल एड्रेस का पंजीयन कंपनी एवं मुख्यवान हिस्सेदार के रूप में आपके के साथ बेहतर तरीके से संचार करने में सहायक सावित होगी, खा मंद्राचर पर होने वाले व्यय में मी कटोती होगी तथा सबसे महत्वपूरी है कि कागज के इस्तेमाल में कटौती से पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ई-मेल एड्रेस के पंजीयन के लिए कृपया अपना

यौरा secretarial@vipulgroup.in अथवा info@masserv.com पर मेजें। -िवोटिंग की प्रक्रिया के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग को स्वच्छ एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए –वोटिंग की प्रक्रिया की जांच के लिए जांचकर्ता के रूप में मैसर्स एवीए एसोसिएटस अपने साझेदार श्री अमिताभ ुर्श्वार जे प्रक्रियं भारति होते होते हैं जिसकी के स्पेत्र के स्वीति होते हैं कि स्वीति हैं जिसकी हैं। अध्यासरत कंपनी सविव (सदस्यता सं. ए14190, सीओपी सं. 5500) को नियुक्त किया गया है। बैठक के दौरान जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 (शाम 6,00 बजे भागारा) अथवा उससे पहले **secretarial@vipulgroup.in** पर अपना नाम, हिमैट 2022 (शान 0.00 वर्ष) मानार) जववर्ष उससे एक **इटारावात्त्रक्षणाम्** प्राप्त गाना भाग । उनार खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मंल आईढी तथा मोबाइल नम्बर मेज कर एक वक्ता के रूप में स्वयं का पंजीवरण करना होगा। वक्ता के रूप में जिन सदस्यों का पंजीवरा किया जाएगा एजीएम के दौरान सिर्फ वही अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी के पास एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के अनुसार उपस्थित रहने वाले वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है। विमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम के दौरान डाले गए बोट के परिणामों को एजीएम के समापन के दो कार्यकारी दिवस

के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद घोषित परिणामों के साथ जांचकर्ता के प्रतिदेवन कंपनी की देवसाइट www.vipulgroup.in बच्च एनएसडीएल की देवसाइट www.evotingnsofl.com पर जारी किए जाएगे तथा स्टेंक एक्सचेंज जाई कंपनी के घोषर सूचीबद है यानी बीएसई तथा एनएसई को सूचीत किया जाएगा एवं उनकी वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध

कृते विपुल लिमिटेड

थान : गुरुग्राम गरीख : 29 अगस्त, 2024

सुनील कुमार कंपनी सचिव

PUBLIC NOTICE is no longer affiliated as Authoris

Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Authorised Person	Address of Authorised Person		
PRAMANIK NIVESH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	PRAMANIK NIVESH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	NSE - AP0291560503 MCX - 158985	C 212 AT F MAIN ROAD NEW USMANPUR DELHI 110053		
Please note that above mention Authorised Person (AP) is no longer associated with us. Any person beneated that above mention AP should do so, at their own risk. Kntak Securities Ltd. shall not					

पशु आहार निर्माण शाला, रूद्रपुर

पत्रांकः : 1561-65/निविदा सूचना/2024-25 ई—प्रोक्योरमैन्ट नोटिस

ई-निविदा सूचना संख्या- 04(1-7)/CFP/2024-25, Date - 29/08/2024 निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा के द्वारा Two Bid System के अर्त्तगर पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) में साईलेज निर्माता फर्मों से **1-कार्न साईलेज** (40—60 कि0ग्रा0 पैक), 2—काम्पैक्ट फीड ब्लाक (भूसा भेली प्लेन) 100% गेहूँ का भूसा 3—चिलेटेड लिक्विड कैल्शियम थर्ड पार्टी मैन्यफैक्चरिंग फर्म से क्रय करने 4—डीoडीoजीoएस (राईस बेस), व 5—DUAL SIDE BOPP लेमिनेटेड बैग 50 कि0ग्रा0, 6— DUAL SIDE BOPP लेमिनेटेड बैंग 25 कि॰ग्रा॰ क्रय करने हेतु तथा विभिन्न प्रजाति (सागौन, पीपल, मलवरी शीशम, सेमल, पीपल, कटहल तथा आम) के वृक्षों की बिक्री हेतु दिनांक 12/09/2024 के सांय 05 00 बजे तक ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 13/09/2024 की प्रातः 11.00 बजे य०सी०डी०एफ० कार्यालय मंगल पडाव हल्दानी में खोली जायेगी।

यूजराजिकाजर्य के विवास व ने ने से बिहा में ने विस्ता जीवनी ।						
क्र0 सं0	विवरण	कुल मात्रा	घरोहर धनराशि	निविदा शुल्क GST सहित ₹		
01	कार्न (मक्का) साईलेज (40–60 कि॰ग्रा॰ पैक)	50000 कुन्तल	₹ 8,67,000	₹ 4,720		
02	काम्पैक्ट फीड ब्लाक (भूसा भेली प्लेन) 100% गेहूँ का भूसा	10000 कुन्तल	₹ 1,75,000	₹ 4,720		
03	चिलेटेड लिक्विड कैल्शियम (05 कि०ग्रा० पैक)	60000 कि0ग्रा0	₹ 1,44,000	₹ 4,720		
04	डी০डी০जी০एस০ (राईस बेस)	1750 कुन्तल	₹ 1,01,000	₹ 4,720		
05	DUAL SIDE BOPP लेमिनेटेड बैग 50 कि॰ग्रा॰	270000 नग	₹ 1,62,000	₹ 4,720		
06	DUAL SIDE BOPP लेमिनेटेड बैग 25 कि० ग्रा०	110000 नग	₹ 66,000	₹ 2,360		
07	विभिन्न प्रजाति (सागौन, पीपल मलवरी, शीशम,	97 नग	₹ 15,000	₹ 590		
	सेमल, पीपल, कटहल तथा आम) के वक्षों की बिक्री					

नोट— निविदा की शर्ते तथा उपलब्धता एवं प्रस्तुतीकरण का तरीका-

निविदा प्रपन्नों का मुक्य उपरोक्त तालिका के अनुसार जी.एस.टी. सहित, निविदा प्रपन्न Onlin lernet की वेबसाइट <u>https://uktenders.gov.in</u> पर उपलब्ध है, तथा यही से Download ए Upload किये जा सकते हैं। ई-निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट से प्राप्त की ज सकती हैं। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी हेतु समय-समय पर वेबसाईट ब अद्यतन किया जाना आवश्यक है। निविदा वेबसाइट पर दिनांक 30.08.2024 से उपलब्ध रहेगी।

पशु आहार निर्माण शाला, रूद्रपुर किंग्रा बाईपास रोड, स्रदपुर (कंग्रा विंह नगर) फोन नं 05944-242552 ई-मेतः aanchalcattlefeed@gmail.com

"अल्पकालिक ई—नि<u>विदा सूचना</u>

पुनः निविदा सूचना संख्या—05(1—06)/Raw Material/MM Salts/CFP/2024-25, Date -29/08/2024 निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा के द्वारा Two Bid System के अर्न्तगत गु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में मिनरल मिक्सचर उत्पादन वे लेये प्रयुक्त होने वाले अवयवों व मेज कॉब्स के आपूर्तिकर्ताओं / निर्माताओं / फर्मी से दिनांक 05.09.2024 के सांय 05.00 बजे तक पुनः अल्पकालिक निविदा आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 06.09.2024 की प्रातः 11.00 बजे यू०सी०डी०एफ० कार्यालय मंगल पड़ाव हल्द्वानी में खोली जायेगी।

页0	कच्चा माल विवरण	कुल मात्रा	घरोहर	निविदा	आपूर्ति		
सं0			धनराशि	शुल्क GST	शैड्यूल		
			₹	सहित ₹			
01	कॉपर सल्फेट	1100 कि0ग्रा0	5400	590			
02	डी0सी0पी0 (रॉक बेस)	173000 कि0ग्रा0	155000	4720	निविदा		
03	मैग्नीज सल्फेट	1100 कि0ग्रा0	1300	590	प्रपत्र		
04	पोटेशियम आयोडाइड	55 कि0ग्रा0	5000	590	के		
05	सोडियम थायो सल्फेट	11950 कि0ग्रा0	16800	1180	अनुसार		
06	मेज कॉब्स्	2500 कु0	58500	2360			
-	ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਿਹਾ ਦੀ ਸਮੂੰ ਤਰਮ ਕਮਾਤਾਵਾਦ ਸੰਤ ਸਤਕਤੀ ਦਾਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਦਾ						

<u>नीट— निविदा की शर्त तथा उपलब्धता एवं प्रस्तुतीकरण का तरीका</u> निविदा प्रपत्रों का मूल्य उपरोक्त तालिका के अनुसार जी.एस.टी. सहित, प्रति गाइटम, निविदा प्रपत्र Online E-tender की वेबसाइट <u>https://uktenders.gov.in</u> पर उपलब्ध है, तथा यही से Download एवं Upload किये जा सकते हैं। ई–निविदा र सम्बन्धित अन्य जानकारी (निविदा संशोधन सूचना / निविदा से संबंधित अन्य सूचना उक्त वेबसाइट के समय–समय पर अद्यतन से प्राप्त की जा सकती हैं। ई–निविद

$_{\mathrm{SPML}}$ एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड CIN:L40106DL1981PLC012228

पंजीकृत कार्यालय : एफ 27/2, ओखला, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 दूरभाषा: 011-26387091; ईमेल: cs@spml.co.in; वेबसाइट: www.spml.co.in

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, दूरस्थ ई–मतदान की जानकारी और बुक क्लोजर

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को अर्पाह्म 01:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो–विजुअल साधन (''ओएवीएम'') के माध्यम से व्यवसाय का लेनदेन करने के लिए, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किया गया है, आयोजित की जाएगी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा इसके सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्य 20/2020 दिनांक 5. मई. 2020. सामान्य परिपत्र संख्या 22/2022 दिनांक 15 जन. 2020 २०/२०० विनाम ५, १३, २०२०, सानान्य सर्वम्र सर्वम्र २८२०, स्थान्य परिपन्न संख्या ३३/२०२०, सामान्य परिपन्न संख्या ३३/२०२० दिनांक २८ सितंबर, २०२०, सामान्य परिपन्न संख्या ३९/२०२० दिनांक ३१ दिसंबर, २०२०, सामान्य परिपन्न संख्या ०२/२०२१ दिनांक १५ जनवरी, २०२१, सामान्य परिपन्न संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपन्न संख्या 10/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2022, सामान्य परिपन्न संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और सामान्य परिपन्न संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 09/2023 (25 सितंबर, 2023) (सामृहिक रूप से संदर्भित ''एमसीए परिपन्नां'') के साथ पठित संबी परिपन्न सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मर्ड 2022 परिपत्र सं. सेबी/एचओ/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और परिपत्र सं सेबी/एवओ/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 (7अक्टूबर, 2023) के अनुसार, कंपनियं को वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन से आयोजित करें . इस प्रकार एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करना है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 43वीं एजीएम शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को अपिक्क 0 1:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके अलावां, वित्त वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय और एजीएम की सूचना गुरूवार, 29 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई, जिनकी ईमेल

आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की 43 वीं एजीएम की सूचना उपलब्ध है और इसे कंपनी

की वेबसाइट www.spml.co.in से और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com प डाउनलोड किया जा सकता है।

कट—ऑफ दिनांक यानी शक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेय रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की सूचना में निर्धारित नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (दरस्थ ई—मतदान) की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि : ्र व्यवसाय, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किया गया है, एजीएम में दूरस्थ ई–मतदान य ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है :

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर टांसफर बक शनिवार, 14 सितंबर, 2024 से शुक्रवार

20 सितंबर, 2024 (दोनों समावेशी दिन) तक बंद रहेंगे, एजीएम के प्रयजोन के लिए, दूरस्थ ई-मतदान मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 (भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे) से शुरु

होगी और गुरूवार, 19 सितंबर, 2024 (भारतीय समयानुसार अर्पाह्र 5:00 बजे) को समाप्त होगीं

एजीएम में दूरस्थ ई–मतदान या ई–मतदान प्रणाली द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ दिनांक शकवार, 13 सितंबर, 2024 होगी;

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सचना भेजने और कट-ऑफ दिनांक अर्थात् शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को शेयर रखने के बाद कैपनी का सदस्य बन जाता है evoting@ssdl.co.in या info@spml.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई—मतदान के लिए

एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का

दरस्थ ई—मतदान प्रणाली को एनएसडीएल द्वारा 19 सितंबर, 2024 को भारतीय समयानसार शाम : 00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान किए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले

सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के ह कदार नहीं होंगे और एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के र जिस्टर में या कट—ऑफ अनुसार के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा नाए गए लाभार्थी मालिकों के र जिस्टर में दर्ज है केवल वे ही एजीएम में दूरस्थ ई–मतदान या ई—मतदान की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे :

एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-मतदान और ई-मतदान के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश वार्षिक आग बैठक की सूचना में दी जाती है;

दूरस्थ ई-मतदान/ई-मतदान से संबंधित प्रश्नों के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) संदर्भित कर सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई-मतदान उपयोगकर्ता मैनुअल एनएसडीएल के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर 1800–1020–990 पर संपर्क करें या www.evoting.nsdl.com को एक अनुरोध भेजों वीसी/ओएबीएम ई-मतदा-के माध्यम से एजीएम के संचालन से संबंधित किसी भी शिकायत/प्रश्नों के मामले में, कृपया सुर्श्र पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसाडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेंड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई—400013, ईमेल : evoting@nsdl.co.in दूरभाष 1800 1020 990 / 1800-224-430 से संपर्क करें।

प्रित एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड

दिनांक : 29.08.2024 स्थान : कोलकाता

हस्ता./-स्वाति अग्रवाल

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिभिटेड øefl , एरंडवाने, डॉ केतकर रोड, पुणे ४१ १००४, महाराष्ट्र, भारत

जॉयजीत रॉय चौधरी, एलडी मध्यस्थ के मध्यस्थता न्यायाधिकरण में तथा इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

> विरुद्ध मैसर्स सनराइज इंडस्ट्रीज एवं अन्य के प्रकरण में बिक्री सूचना

संदर्भ सं. एआरबी /01 / ईएफएल /24–25 के अंतर्गत पारित, एकमात्र मध्यस्थ श्री जॉयजीत रॉय चौधर के आदेश दिनोंक 12.07.2024 के अनुसार, एतदहारा निम्न, फाइव नंबर्स : **1) कार्ल जीस द्वारा विनिर्मि**ट जीस टीएसके मेक कॉन्टूर मॉडल काउंटोरिको आरडी 1600 जी 12 टी टेबल के साथ, 2) एसीई स्लैंट बेड सीएनसी लेख एसजेई06 आरजी कंट्रोल्स फैनुक ओइफ प्लस और एसीई डिजाइनर लिमिटेड द्वार विनिर्मित आपूर्ति के क्षेत्र के अनुसार सभी सहायक उपकरणों के साथ, 3) एसीई स्लैंट बेड सीएनसी लेथ एसजेई06 आरजी कंट्रोल्स फैनुक ओइफ प्लस और एसीई डिजाइनर लिमिटेड द्वारा विनिर्मित आपूर्ति के क्षेत्र के अनुसार सभी सहायक उपकरणों के साथ, 4) फैनुक द्वारा विनिर्मित फैनुक इंजेक्शन मोर्लिंडग **मशीन, 5) फैनुक द्वारा विनिर्मित फैनुक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन** के विक्रयार्थ, सर्वोच्च बोलीदाताओं व नुसार, जैसी हैं जहाँ हैं तथा वहाँ जो कुछ भी है आधार पर, प्रतिस्पर्धी बोलियाँ निमंत्रित की जार्त मोहरबंद लिफाफे औदुंबर, 101/1, एरंडावणे, डॉ. केतकर रोड, पुणे-411004 के कार्यालय दिनांक: 01-09-2024 को अप. 2:30 बजे खोले जायेंगे। संपूर्ण विवरण अर्थात् विक्रय के नियम ए ातें, जिसमें बोलियाँ जमा करने के आयोजनों के पूरे विवरण, मोहरबंद लिफाफे खोलने, विक्रय क षयवस्तु वाली परिसंपत्तियों की सूची के पूरे विवरण की अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं, इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंर लिमिटेड के कार्यालय में उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीदातागण श्री कुलदीप गुप्ता (मोबाइल : 9226075391 से संपर्क कर सकते हैं।

हस्ता. / - प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 30-08-2024 स्थान : दिल्ली / नोएडा मैसर्स इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड इंडियन बैंक 🚜 Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालयः 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,

निविदा हेतु सूचना

इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय एमएसएमई एवं देयताएं वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गरामर्शदाता की नियुक्ति हेतु अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। निविदा संबंधी विस्तृत दस्तावेज बैंक की वेबसाइट <u>www.indianbank.in</u> और सरकारी ई

मार्केटप्लेस (जीईएम पोर्टल) <u>www.gem.gov.in</u> के निविदा अनुभाग में उपलब्ध है। निविदा दस्तावेजों में संशोधन सहित कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट

www.indianbank.in और सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम पोर्टल) www.gem.gov.in पर अधिसूचित किया जाएगा।

निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.09.2024 अपराह्र 3.00 बजे तक है।

दिनांकः 29.08.2024

उप महाप्रबंधक (एमएसएमई)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित् किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, **मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1**27), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि—682018, केरल, मारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2023 तक की अवधि के लिए NPA खाते और **31.03.2024** की अवधि तक के **कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 06.09.2024

दिल्ली-लक्ष्मी नगर (0040): MAL-3470, 3490, 3512, MDD-14, 68, MDL-2027, 2122, 2143, 2182, 2200, 2236, 2238, 2265, 2266, 2271, 2295, 2297, 2319, MEG-102, MUL-9221 9375, 9433, 9491, 9505, 9507, 9521, 9595, 9661, 9671, 9678, 9684, 9715, SRS-5, 10, 36, 39, 70, 104, 114, 115, 130, 142, 143, 144, 150, दिल्ली-ऋषभ विहार (0328): MDD-98 140, MDL-1611, 1647, 1650, 1849, MEG-32, MUL-8403, 8405, 8434, SRS-8, 9, 45, 74, 76, 77, 100, 138, 160, दिल्ली-मयुर विहार (0398): MAL-7282, MBP-3, MDD-56, MDL-3808, 3949, 4056, 4085, 4139, 4168, 4195, 4227, 4244, 4257, 4342, 4345, 4347, 4353, 4377, 4432, 4469, 4583, 4586, 4654, 4672, 4755, 4875, 4902, 4939, 4967, 4999, 5006, 5041 5049, 5082, 5139, 5166, 5210, 5231, 5238, 5277, 5342, MEG-78, 80, 479, 487, 535, 551, 552, MUL-13918, 14137, 14231, 14262, 14331, 14391, 14463, 14638, 14736, 14972, 15053, 15056, 15093, 15140, 15211, 15230, 15233, 15257, 15259, 15314, 15325, 15333, 15344, 15354, 15367, 15376, 15405, 15412, 15418, 15483, 15485, 15537, 15548 15573, 15590, 15611, 15618, 15619, 15639, 15656, 15783, 15830, 15879, 15893, 15918, 15965, 16034, 16080, 16087, 16088, 16099, 16259, SRS-47, 48, 128, 143, 147, 177 189, 266, 286, 302, 322, 323, 333, 334, 362, 364, 381, TMS-4, 19, **दिल्ली-गीता कॉलोनी (0907)**: BLS-47, MAL-3074, 3100, MDD-19, MDL-2227, 2309, 2504, 2519, 2539, 2568 2613, 2734, 2770, 2917, MEG-129, 315, 317, MUL-5678, 5682, 5710, 5770, 5813, 5834, 5845, 5846, 5865, 5947, 5999, 6041, 6062, 6075, 6120, 6145, SRS-10, 38, 41, 57, 65 66, 68, 71, 76, 78, 119, 120, 155, दिल्ली-मयूर विहार फ़ेज़ III (1017): BLS-36, 66, 74, MAL-6993, MDD-61, 94, 111, 160, MDL-4718, 4889, 5019, 5030, 5080, 5133, 5394, 5639, 5640, 5648, 5649, 5662, 5729, 5816, 5972, 6130, 6176, 6349, 6436, 6467, 6608, 6667, 6720, 6729, 6775, 6791, 6819, 6891, 7002, 7005, 7035, 7064, 7099, 7116, 7118, 7120 7136, 7208, 7221, 7222, 7227, 7237, 7275, 7282, 7316, 7355, 7357, 7359, 7367, 7446, 7568, 7569, 7639, MEG-12, 147, 176, 340, MUL-16784, 17360, 17490, 17570, 17645 17778. 17831. 17983. 18349. 18360. 18547. 18548. 18579. 18596. 18626. 18635. 18653. 18667. 18698. 18699. 18705. 18733. 18748. 18753. 18754. 18785. 18805. 18811 18826, 18833, 18926, 18980, 18985, 19001, 19005, 19017, 19083, 19092, 19112, 19125, 19210, 19245, 19260, 19261, 19387, 19388, 19412, 19454, 19470, 19475, 19558, 19625, 19636, 19717, 19723, 19729, 19750, 19786, 19792, 19802, 19828, 19842, 19869, 19875, 19876, 19945, 19946, 19961, 19965, 19982, 19999, 20007, 20019, 2004 754, 767, 781, 789, 804, 838, TMS-3, दिल्ली-विकास मार्ग (**1041)**: MDD-41, MDL-3006, 3008, 3010, 3033, 3034, 3050, 3200, 3226, 3319, 3524, MEG-197, MUL-6929, 6931, 6947 6957, 6965, 6987, 6994, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7050, 7068, 7120, 7132, 7134, 7187, 7192, 7210, 7211, 7213, 7224, 7227, 7241, 7258, 7270, 7277, 7283, 7287, 7305, 7331, 7332, 7392, 7429, 7450, SRS-1, 3, 4, 20, 41, 52, 65, 106, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 233, 234, 235, 236, 253, 254, **दिल्ली-कृष्णा नगर (1124):** MDL-1260 1269, 1309, 1416, 1418, 1422, 1426, 1481, 1514, 1594, 1619, 1640, 1641, 1650, 1682, 1699, 1700, MEG-54, 55, MUL-6499, 6500, 6519, 6530, 6545, 6550, 6640, 6688, 6693, SRS-43, 78, 135, 151, दिल्ली-गांधी नगर **(1192)**: MDL-1091, 1211, 1222, 1270, 1376, 1388, 1398, 1550, 1566, 1571, MEG-127, 139, 173, 246, 267, MUL-6430, 6437, 6460, 6483, 6501, 6512, 6526, 6557, 6574, 6585, 6624, 6632, 6656, 6699, 6702, 6765, 6770, 6772, 6779, 6801, 6825, 6838, SRS-14, 17, 23, 31, 93, 124, दिल्ली-मयूर विहार फ्रेज़-1 (1195): MDL-2192, 2231, 2821, 3063, 3071, 3113, 3169, 3214, 3238, 3239, 3346, 3445, 3461, 3506, 3521, 3609, 3665, 3725, 3767, 3779, 3791, 3811, 3819, 3878, 3946, 4021, 4032 MEG-33, 180, 233, 235, 237, 257, 258, MUL-9381, 9692, 9965, 9983, 9999, 10108, 10176, 10414, 10492, 10536, 10537, 10563, 10570, 10614, 10689, 10715, 10716, 10762 10790, 10874, 10887, 10917, 10975, 10978, 10982, 11052, 11159, 11316, 11350, 11373, 11385, 11404, 11426, 11427, 11584, 11616, 11618, 11621, 11622, 11724, 11772, 11813, SRS-7, 10, 11, 15, 24, 63, 113, 173, TMS-10, 20, दिल्ली शकरपर (विकास मार्ग) (1257): MAL-2889, 2890, MDL-1805, 1807, 1815, 1830, 1864, 1949, 2006, 2018, 2019, 2106 2169, 2193, MEG-33, 67, 223, 263, 310, MUL-8498, 8501, 8553, 8555, 8663, 8751, 8804, 8837, 8849, 8855, SRS-8, 17, 24, 52, 53, 67, 119, 129, 154, TMS-2, 8, दिल्ली-जगतपूरी (1442): MDD-13, MDL-1253, 1372, 1414, 1502, 1528, 1573, 1608, MEG-20, 107, MHP-239, MUL-6282, 6359, 6381, 6408, 6453, 6456, 6470, 6471, 6491, 6492, 6550, 6624, 6694 SRS-47, 70, 76, 88, 91, 104, 119, 120, <mark>दिल्ली- मदर डेयरी पांडव नगर (1570):</mark> MDL-1534, 1594, 1595, 1614, 1725, 1796, 1816, 1817, 1889, 1968, 2054, 2159, MEG-227, 300, MUL-6095, 6122, 6123, 6124, 6205, 6214, 6215, 6258, 6331, 6353, 6357, 6358, 6359, 6429, 6655, 6656, 6658, 6671, 6736, 6781, 6805, 6807, 6824, 6876, 7001, 7004, 7017 SRS-20, 21, 25, 72, 100, 111, TMS-10, **दिल्ली-कड़कड़डूमा (1625):** MDL-730, 800, 876, 886, 915, 922, 1012, MEG-175, MUL-5040, 5107, 5203, 5206, 5220, 5361, 5385, SRS-5 9, 10, 32, 33, 41, 55, 88, दिल्ली-कृष्णा नगर II (1631): MAL-1540, 1550, MDL-1276, 1316, 1380, 1417, 1429, 1464, MEG-147, 175, MUL-3697, 3875, 3908, 3945, 3966, 3971 4010, 4015, 4074, 4109, 4177, 4196, SRS-1, 2, 20, 48, 49, 74, 97, 99, दिल्ली-पश्चिम विनोद नगर (1854): MBS-2, MDL-2245, 2262, 2295, 2371, 2386, 2404, 2429, 2452, 2509, 2532, 2586, 2599, 2619, 2713, 2749, 2754, 2806, 2852, 2922, 2934, 2936, MEG-130, 168, MUL-12370, 12861, 12867, 12967, 12990, 13003, 13039, 13183, 13200, 13253, 13302, 13253, 13302, 13253, 13250, 132500, 132500, 132500, 132500, 132500, 132500, 132500, 132500, 1325000, 132500, 132500, 132500, 1325000, 1325000, 1325000, 1325000, 1325000, 1325000, 1325000, 1325000, 13250000, 1325000000000 13365, 13387, 13395, 13420, 13449, 13482, 13625, SRS-1, 36, 86, 117, 128, 131, 138, 172, 180, 193, 197, 203, 204, 207, TMS-5, दिल्ली-विश्वास नगर **(2498):** MDD-28, 45 MDL-948, 1191, 1200, 1291, 1306, 1308, 1314, 1335, MEG-44, MUL-4639, 4660, 4703, 4706, 4738, 4895, 4905, 4909, 4968, 4971, 4972, 5075, 5099, SRS-15, 22, 52, 72, 74, 85 92, दिल्ली-रघूबरपुरा (2519): MDL-965, 1001, 1181, 1240, 1256, 1381, 1387, 1429, 1445, MUL-4935, 4993, 5012, 5059, 5075, 5083, 5115, 5180, 5223, SRS-14, 17, दिल्ली-राघे स्थाम पार्क (2557): MDL-1155, 1215, 1237, 1313, 1413, 1417, 1492, 1515, 1516, 1519, 1535, 1539, 1545, 1549, 1555, 1556, 1611, 1643, 1675, 1676, 1678, 1698, 1702, 1712. 1744, 1796, MEG-117, 286, 300, 302, MUL-6998, 7081, 7141, 7147, 7162, 7226, 7281, 7325, 7364, 7367, 7399, 7419, SRS-4, 65, 82, दिल्ली-प्रीत विहार (2563): MAL-1521, MDL-1003, 1021, 1139, 1183, MEG-30, 41, 202, MUL-5706, 5863, 5866, 5874, 5910, 5961, 5971, 5990, 6015, SRS-141, 142, 163, 167, TMS-6, 7, 8, 23, 39, 46, दिल्ली-खिचडीपुर (2785): MAL-4219, 4237, 4292, MDL-1929, 1975, 1976, 2530, 2556, 2559, 2685, 2702, 2709, 2769, 2877, 2944, 2949, 3068, 3106, 3113, 3120, 3122, 3124, 3136, 3233, MEG-12, 3124, 3136, 3234, MEG-12, 3124, 3124, 3124, 3136, 3234, MEG-12, 3124, 3124, 3124, MEG-12, 3124, 3124, MEG-12, 3124, MEG-12, 3124, 3124, MEG-12, 3124, MEG-12, 3124, MEG-12, 3124, MEG-12, 3124, MEG-12, 3124, MEG-12, ME 39, MUL-14494, 14668, 14786, 14850, 14979, 15033, 15096, 15170, 15180, 15185, 15194, 15232, 15239, 15241, 15323, 15361, 15367, 15371, 15485, 15548, 15596, 15627 15651, 15694, 15724, 15759, 15783, 15814, 15831, 15846, 15905, 15938, 16053, SRS-12, 31, 42, 45, 46, 47, 81, 83, 87, 158, 181, 195, 219, 238, 250, 252, दिल्ली-विश्वास नगर 60 फीट रोड (3219): BLS-42, 56, MDD-2, MDL-1496, 1546, 1574, 1712, 1725, 1856, 1860, 1873, 1883, 1884, 1953, MUL-7401, 7412, 7499, 7541, 7600, 7638, 7694, 7698, 7713, 7757, 7781, 7799, 7800, 7815, 7824, 7825, 7868, 7925, SRS-18, 54, 67, 137, 141, 152, 163, 165, दिल्ली-न्यू गोविंदपुरा **(3524):** MDL-1996, MEG-37, 108, MGV-2, MUL-6793, 7061, 7072, 7073, 7092, 7104, 7140, 7197, 7218, 7227, 7246, 7266, 7297, 7401, 7473, 7499, 7517, SRS-1, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 37, 38, 43, 74, 89, दिल्ली-विवेक विहार (**3695)**: MDD-8, 58, MDL-1512, 1606, 1730, 1737, 1753, 1851, 1937, 1998, 2009, 2010, 2058, 2079, 2219, MEG-1, 32, 159, 221, 255, 259, MHP-412, MUL-9012, 9125, 9238, 9265, 9363, 9382 9465, 9484, 9527, 9563, 9568, 9623, 9624, 9662, 9669, 9726, 9727, 9785, SRS-12, 28, 36, 38, 53, 74, 75, 94, 136, 142, 148, 161 कम टंच/कम शद्धता/अपर्याप्त वजन कटौतीः दिल्ली-रघबरपरा (2519): MDL-1975

द्वितिय नीलामी की तिथि: 07.09.2024, नीलामी स्थान: 111-112, पहली मंजिल, रूट्स टावर, प्लॉट नं-7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी **दितिय नीलामी की तारीख** को क्रमशः **दिये गए नीलामी केंद्र** में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी रिथति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान प्र जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली-110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, **मेसर्स मुश्रूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2. मुश्रूट चेम्बर्स.** रोड, कोच्चि—682018, केरल, भारत, CIN L65910KL1997PLC011300, दूरमाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506 ाहनों (**31.03.2023** त और **31.03.2024** की अवधि तक के **कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 06.09.2024

भरतपुर-(रा) (4501): MDL-642, 1059, 1064, 1068, MHP-459, MUL-3698, 3702, 3703, RGL-2189, 2223, 2414, 2470, 2530, 2549, SRS-26, 53, 137, 156, 160, 175 द्वितीय नीलामी की तिथि: 07.09.2024, नीलामी स्थान: मुथुट फाईनान्स लिमिटेड, स्टेशन रोड के पास, युनियन बैंक के सामने, भरतपुर, राजस्थान-321001 प्रथम नीलामी की तिथि: 06.09.2024

दौसा-(रा) (3972): MDL-602, RGL-954, 1074, 1124, SRS-55, 89, 99, 100

द्वितीय नीलामी की तिथि: 09.09.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, निचला तल, होटल शांति बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, दौसा, राजस्थान-303303 प्रथम नीलामी की तिथि: 06.09.2024

टोंक-(रा) (2027): BLS-45, MDL-891, MUL-2805, RGL-1810, 1831, 1876, 1979, 1980, 2036, SRS-21, 86, 121, 150, 153, निवाई टोंक-(रा) (3341): MDL-382, RGL-898, SRS-44 92, देवली-(रा) (3708): MDD-6, MEG-295, RGL-2239, 2442, 2600, 2721, 2745, 2768, 2792, 2854, SRS-61, 62, 63, 89

द्वितीय नीलामी की तिथि: 10.09.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, पहली मंजिल, नज़र बाग रोड, टोंक, राजस्थान-304001 प्रथम नीलामी की तिथि: 06.09.2024

जयपर-एम.आई रोड (0329): MDL-2897, 2942, MEG-200, MUL-7707, 8273, 8342, 8385, 8408, 8437, 8584, 8585, 8587, 8636, SRS-14, 216, 357, 393, 394, जयपर-राजापार्व (0330): BLS-80, 134, 135, 144, MEG-209, 317, MUL-15570, 15607, 15674, 15726, 15742, 15743, 15776, 15786, 15830, 15864, 15875, SRS-141, 179, 270, 275, 376, TMS-29, जयपुर-टोंक रोड (0443): MDL-2185, MEG-366, MUL-6794, 6877, 6930, 6956, 7054, 7082, 7184, SRS-100, 130, 324, जयपुर-वैशाली नगर (0444): MDL-2029, 2127, 2175 MEG-276, MUL-6737, 6809, 6821, 6856, 6901, 7032, 7059, SRS-90, 91, 92, 95, 171, 174, 181, 312, TMS-25, जयपुर-मानसरोवर (0485): MDL-1568, MEG-221, 222, 231, 242 MUL-4590, 4687, 4711, 4737, 4751, 4810, 4941, 4969, SRS-79, 106, 133, 161, 231, 235, 237, जयपुर-विद्याधर नगरँ (0486): BLS-96, MDL-2290, 2369, MEG-238, MUL-10150 10298, 10299, SRS-123, 128, 277, 293, जयपुर-जोहरी बाजार **(0501)**: MAL-6650, MDL-4555, 4704, 4857, 5331, 5706, 5847, 6194, 6513, 6556, MEG-559, 677, 746, MUL-14432, 15858, 16212, 16327, 16611, 16621, 16705, 16716, 16730, 16803, 16816, 16819, 16841, 16869, 16916, 16941, 16996, 17005, 17028, 17029, 17082, 17099, 17122, 17141 17187, 17234, 17261, 17270, 17363, 17466, 17481, 17713, 17752, 17764, 17787, 17844, 17856, 17858, 17929, 18012, 18013, 18025, SRS-120, 126, 127, 129, 215, 218, 219 221, 233, जयपुर-मालवीय नगर (0534): MDD-93, MDL-1273, 1327, MEG-69, 322, 366, MUL-7669, 7675, 7686, 7688, 7804, 7955, 8154, SRS-106, 177, जयपुर-सोडाला (0742): BLS-198, MDL-3261, 3262, 3729, 3744, MEG-348, 399, MUL-11730, 11770, 11799, 11931, 12058, 12096, 12119, 12137, 12144, 12176, 12240, 12259, 12267, 12353, 12442 12500, 12512, 12622, 12633, 12646, 12648, SRS-202, 217, 361, 362, 385, 408, 469, 482, 492, 493, 494, 500, 563, जयपुर-झोटवाड़ा (0862): MDL-1879, 2646, 2654, MEG-162 337, 395, 396, MUL-9845, 9848, 9849, 9950, 9989, 10069, 10137, 10146, 10214, 10277, 10328, 10396, 10413, SRS-227, 322, 336, 357, 361, 363, 368, TMS-43, 44 जयपुर-डीरीएम (0997): MDD-198, MDL-1149, 1575, 1859, MEG-540, 604, MUL-8272, 8281, 8301, 8352, 8358, 8394, 8469, 8502, 8535, 8540, 8617, 8645, 8653, SRS-86, 94, 98 148, 149, 210, 256, 359, TMS-37, जयपर-सांगानेर ((1013): BLS-128, MDL-1950, 2587, 2609, 2610, 2617, MEG-388, MUL-14602, 14869, 14980, 14990, 14991, 15032, 15081 15095, 15192, 15214, 15266, 15360, 15365, 15406, 15426, 15431, 15441, 15492, 15493, 15503, SRS-75, 180, 187, 247, 304, 305, 306, जयपुर रजत पथ मानसरोवर (1766) MDL-1162, 1691, MEG-108, MUL-8179, 8873, 8906, 8944, 9174, 9181, 9230, 9240, SRS-124, 134, जयपुर-सुभाष नगर (1859): BLS-38, MDL-1019, 1489, MEG-169, 170, 204, MUL-6571, 6839, 6971, 6973, 7078, 7257, 7325, 7356, SRS-112, 122, 191, 278, 295, 309, 321, जयपुर-खातीपुरा (1861): MDL-2198, MEG-238, MUL-7928, 7948, 8019, 8077 8103, 8205, 8278, SRS-120, 191, 266, 270, 384, 429, जयपुर- गांधी पथ क्वींस रोड (1918): MDL-1248, MEG-91, 92, 147, 219, 221, 248, MUL-7605, 7753, 7928, 8023, 8071 8084, 8163, 8195, 8226, SRS-14, 67, 118, 156, 241, 279, जयपुर-महेश नगर (1937): MDL-1108, 1211, MUL-6189, 6199, 6221, 6270, 6315, SRS-32, 76, 127, 131, 154, 155, 156 157, जयपुर-किशनपोल बाज़ार (1972): MDL-1737, MEG-269, MUL-9303, 9304, 9380, 9490, 9540, SRS-55, 57, 143, 144, 222, 227, 233, 375, 423, चोम्-(रा) (1973): BLS-76 MDL-1044, 1062, MUL-4981, 4986, 4995, 4998, 5026, 5080, RGL-2120, 2327, SRS-283, 311, जयपर-कलवार रोड (1974); BLS-76, 125, 126, MDL-4551, MUL-18204, 18670 18689, 18771, 18794, 18816, 18851, 18944, 19009, 19024, 19099, 19112, 19128, 19160, 19181, 19281, 19331, 19422, 19428, 19460, SRS-85, 190, 257, 301, 418, 507, 536, 546 574, 624, जयपुर-सीकर रोड (1975): MDD-43, MDL-641, 907, MUL-4146, SRS-35, 92, 121, 122, 138, 152, 155, 171, जयपुर-मुरलीपुरा (1996): MDL-2769, MEG-632, MUL-9237 10182, 10371, 10491, 10531, 10558, 10562, 10657, 10663, 10667, 10707, 10722, SRS-127, 217, 359, TMS-47, जयपुर-न्यू सांगानेर रोड (2407): BLS-5, 23, 25, 26, 37, 38, 39 MDL-2006, 2027, MEG-357, 392, 406, 417, 419, MHL-157, MHP-572, MUL-4833, 5240, 5383, 5403, 5410, 5485, SRS-108, 157, 160, 161, 163, 202, 210, 242, 274, 290, दुर्गापुर (रा) (2579): MEG-9, MUL-7734, 7804, 7849, 7879, 7933, 7982, 8000, SRS-11, 179, जयपुर-गोपालपुरा (2704): BLS-33, 34, 38, MDL-762, 788, 791, 792, MEG-97, MUL-6714 6718, 6765, 6815, 6835, 6856, 6901, 6920, 6921, 6955, SRS-46, 123, 203, जयपुर-ब्रह्मपुरी (2754): BLS-177, MDL-3107, MEG-438, 457, 464, 489, 491, MUL-12104, 12308, 12477, 12492, 12506, 12522, 12530, 12537, 12574, 12580, 12585, 12707, 12739, 12766, 12879, 12959, SRS-276, 325, 359, 391, 392, 410, 456, 471, जयपुर-जवाहर नगर (2755): MDD-24, 39, MDL-899, 998, 1215, 1267, 1411, MUL-6246, 6316, 6351, 6401, 6411, 6501, 6558, 6562, 6569, 6590, 6625, SRS-141, 198, जयपुर-तिलक नगर (2769): MDD-72, MDL-984, MEG-146, 199, MUL-6763, 6815, SRS-105, 124, 149, 150, 228, जयपुर-शास्त्री नगर (2941): MDL-1121, 1960, MEG-200, MUL-9823, 10041, 10146, 10212, 10215 10249, 10256, 10295, 10322, 10447, 10500, 10534, 10591, 10615, SRS-23, 149, 176, कोटपुतली-(रा) (3314): BLS-115, 131, 153, 184, 185, 194, 204, 223, MDD-56, 57 MDL-1113, 1120, 1121, 1127, MEG-92, MUL-5743, 5744, 5745, 5772, 5775, 5776, 5780, 5798, 5817, RGL-2798, 2811, 2839, 2841, 2969, SRS-51, 185, 194, 196, 206, 224, 229, 230, 240, 249, जयपुर-गांधी नगर मोड **(4371)**: MDL-671, MEG-160, MUL-5042, 5072, 5078, SRS-16, 25, 50, 100, 108, 112, TMS-17, जयपुर-एमआई रोड-सरकारी छात्रावास चौराह (4461): MAL-1274, 1287, MDL-673, 840, 973, MUL-4913, 4921, 4934, 4963, 4987, 4994, SRS-50, 88, 108, 109, शाहपरा (रा) (4533): MUL-3494, RGL-2359, 2502, 2602, 2649 SRS-82, 105, प्रताप नगर (रा) (4635): MDL-1375, 1451, 1455, 1456, 1466, 1475, 1476, 1484, MEG-195, 257, MUL-8147, 8355, 8358, 8366, 8388, 8413, 8448, 8466, 8478, 8569, 8580, 8598, 8615, 8617, 8639, 8657, 8667, 8667, 8677, 8685, 8721, 8759, 8760, 8825, 8826, 8827, 8837, 8871, SRS-9, 18, 43, 68, 77, जयपुर-अमरपाली सर्कल (4761): MUL-2618, 2619, 2620, SRS-17, 18, 26, जयपुर-निवारू रोड (4947): MDL-903, 923, 926, MEG-147, MUL-3523, 3558, 3575, 3604, 3639, 3649, 3654, 3678, 3714, 3732, 3733, 3818, SRS-44, 71

95, 96, 98, 99, 103, 109, फुलेरा-रा (**5107):** MDL-24, MUL-87, RGL-548, 557, 559, SRS-5 कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौतीः जयपुर - मानसरोवर (0485): MDL-2486, MHP-415, जयपुर-विद्याधर नगर (0486): SRS-155, जयपुर-गोपालपुरा (2704): MGM-18

जयपुर-तिलक नगर (2769): MUL-7968, 7972 द्वितौय नीलामी की तिथि: 11.09.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, पहली मंजिल, पी एल मोटर्स के ऊपर, भगवती भवन, शहीद स्मारक, सरकारी हॉस्टल क्रॉसिंग, एम आई रोड, जयपूर, राजस्थान-302001

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी **द्वितीय नीलामी की तारीख** को क्रमशः

दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली-110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

INDUS TOWERS LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L64201HR2006PLC073821 Registered & Corporate Office: Building No. 10, Tower A, 4th Floor, DLF Cyber City, Gurugram-122002, Haryana Tel: +91 -124-4296766 Fax: +91 -124 -4289333

Website: www.industowers.com Email: compliance.officer@industowers.com

TOWERS Contact Person: Samridhi Rodhe, Company Secretary and Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF INDUS TOWERS LIMITED

This post buyback public advertisement ("Post Buyback Public Advertisement") is being made in compliance with Regulation 24(vi and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amende ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated July 31, 2024 and published on Thursday, August 01, 2024 ("Public Announcement") and the Letter of Offer dated August 12, 2024 ("Letter of Offer") issued in connection with the Buyback.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

THE BUYBACK

- Indus Towers Limited ("Company") had announced the Buyback of up to 5,67,74,193 (Five Crore Sixty-Seven Lac, Seventy-Four Thousand, One Hundred Ninety-Three only) Equity Shares, representing approximately 2.107% (Two point One Zero Sever percent) of the total number of Equity Shares in the paid-up share capital of the Company, at a price of INR 465 (Indian Rupees Four Hundred and Sixty Five only) per Equity Share ("Buyback Price"), subject to any increase to the Buyback Price as may be approved by the Board or its committee thereof, payable in cash for an aggregate amount up to INR 2,640 Crore (Indian Rupees Two Thousand Six Hundred Forty Crores only) ("Buyback Size"), excluding transaction costs, applicable taxes and other incidental and related expenses, from all of the equity shareholders/ beneficial owners of the Company, including the members of the promoter and promoter group of the Company ("Promoter & Promoter Group"), who hold Equity Shares as of Friday, August 09, 2024 ("Record Date") on a proportionate basis through the tender offer route in accordance with the provisions of the Buyback Regulations, Companies Act, 2013, as amended ("Companies Act"), rules framed thereunder including the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as amended ("Share Capital Rules"), the Companies (Management and Administration Rules, 2014, as amended ("Management Rules"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), to the extent applicable, and the SEBI Circulars (hereinafter referred to as "Buyback"). The Buyback Size constitutes 9.9971% and 9.9668% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company as per the latest audited interin condensed standalone and consolidated financial statements as at and for the three-month period ended June 30, 2024.
- The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide SEBI circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and read with the SEBI's circular with reference number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 8, 2023 and such other circulars of notifications, as may be applicable, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- The tendering period for the Buyback opened on Wednesday, August 14, 2024, and closed on Wednesday, August 21, 2024.
- DETAILS OF THE BUYBACK
- The total number of shares bought back by the Company under the Buyback were 5,67,74,193 (Five Crore Sixty-Seven Lac Seventy-Four Thousand, One Hundred Ninety-Three only) Equity Shares, at a price of ₹ 465 (Indian Rupees Four Hundred and Sixty Five only) per Equity Share
- The total amount utilized in the Buyback is ₹ 2,639,99,99,745/- (Indian Rupees Two Thousand Six Hundred Thirty Nine Crores Ninety Nine Lac Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Forty Five only) excluding Transaction Costs.
- The Registrar to the Buyback i.e., KFin Technologies Limited ("Registrar"), considered 90,987 valid bids for 55,25,60,836 Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 9.73 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back.
- The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows

Category	Number of Equity Shares reserved in the Buyback	Number of Valid Bids received in the category	Total Equity Shares Validly Tendered	Response (%)
Reserved Category for Small Shareholders	85,16,129	67,157	1,48,00,934	173.80
General Category for other Eligible Shareholders	4,82,58,064	23,830	53,77,59,902	1114.34
Total	5,67,74,193	90,987	55,25,60,836	973.26

- All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offei The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar via email to the relevant Eligible Shareholder (who have their e-mail IDs registered with the Company or the Depositories) on Wednesday, August 28, 2024.
- The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation on Wednesday, August 28, 2024. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by RBI or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders were transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account or Wednesday, August 28, 2024. The unaccepted Equity Shares in dematerialized form have been returned to the respective Eligible Shareholders/lien removed by the Clearing Corporations on Wednesday, August 28, 2024. No Equity Shares were tendered in
- The extinguishment of 5,67,74,193 Equity Shares accepted under the Buyback, all of which are in dematerialized form, currently under process and shall be completed in accordance with the Buyback Regulations, on or before September 6, 2024.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1 The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

		Pre-Buyback		Post-Buyback		
Sr. No.	Particulars	No. of Equity Shares	Amount (IN ₹)	No. of Equity Shares	Amount (IN ₹)	
1	Authorised Share Capital	3,550,000,000 Equity Shares of	35,50,00,00,000	3,550,000,000 Equity Shares of	35,50,00,00,000	
		₹ 10/- each		₹ 10/- each		
- 1	Issued, subscribed and fully paid-up share capital	2,69,49,36,950 Equity Shares of ₹ 10/- each	26,94,93,69,500	2,638,162,757 Equity Shares of ₹ 10/- each	26,381,627,570	

3.2 Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back are as

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total post Buy Back Equity Share capital of the Company*		
1	SBI Mutual Fund (through its multiple schemes)	3,124,297	5.50	0.12		
2	Omega Telecom Holdings Pvt. Ltd	2,541,798	4.48	0.10		
3	Life Insurance Corporation of India	2,070,239	3.65	0.08		
4	Mirae Asset Mutual Fund (through its multiple schemes)	1,840,557	3.24	0.07		
5	Government Pension Fund Global	1,607,310	2.83	0.06		
6	Nippon Life India Trustee Ltd (through its multiple schemes)	1,446,997	2.55	0.05		
7	DSP Mutual Fund (through its multiple schemes)	1,212,779	2.14	0.05		
8	Baron Emerging Markets Fund	1,120,108	1.97	0.04		
9	Vanguard Total International Stock Index Fund	995,690	1.75	0.04		
10	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund A Series	764,156	1.35	0.03		
11	Usha Martin Telematics Limited	730,174	1.29	0.03		
12	TATA Mutual Fund (through its multiple schemes)	722,646	1.27	0.03		
13	Mahindra Manulife Mutual Fund (through its multiple schemes)	658,874	1.16	0.02		
14	Franklin India Mutual Fund (through its multiple schemes)	640,265	1.13	0.02		
15	360 One Mutual Fund (through its multiple schemes)	576,317	1.02	0.02		
	* Subject to extinguishment of 5,67,74,193 Equity Shares accepted in the Buyback.					

The shareholding pattern of the Company, prior to the Buyback (i.e., as on the Record Date, being August 09, 2024) and post the completion of the Buyback, is as follows:

	Pre-Buyback		Post-Buyback*	
Category of Shareholder	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares post Buyback	% of total outstanding Equity Shares
Promoter & Promoter Group and persons				
acting in concert (A)	1,40,16,93,791	52.01	1,39,84,21,819	53.01
Shareholding of non-promoters (B)	1,29,32,43,159	47.99		
Foreign Investors (OCBs/ FIIs/ NRIs/ Non-residents/				
Non-domestic companies)	66,10,82,128	24.53		
Indian Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds/			1,23,97,40,938	46.99
Government Companies	45,30,25,001	16.81		
Others (Individuals, Bodies Corporate, Employees,			1	
etc.)	17,91,36,030	6.65		
Total (A+B)	2,69,49,36,950	100.00	2,63,81,62,757	100.00

* Subject to extinguishment of 5,67,74,193 Equity Shares accepted in the Buyback.

MANAGER TO THE BUYBACK **AXIS CAPITAL**

AXIS CAPITAL LIMITED

1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel.: +91 22 4325 2183: Fax: +91 22 4325 3000 Contact Person: Sagar Jatakiya/Payan Naik Email: indus.buyback@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in

SEBI Registration Number: INM000012029 DIRECTORS' RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Advertisement and confirms that this Post Buyback Public Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board in terms of the resolution passed by the Board on Tuesday, July 30, 2024 and by the Buyback Committee on Thursday, August 29, 2024.

For and on behalf of the Board of Directors of Indus Towers Limited

Prachur Sah Managing Director and CEO DIN: 07871676

Harjeet Kohli Non-Executive ndependent Director DIN: 07575784

Samridhi Rodhe **Company Secretary and** Compliance Officer Membership No.: ACS A25440 **CSL Finance Limited**

CIN: L74899DL1992PLC051462

CSL Finance



Notice is hereby given that the Thirty- Second (32th) Annual General Meeting ('AGM') of CSL Finance Limited ("Company") will be held on Saturday, September 21, 2024 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to transact the business set out in the Notice of AGM.

The Company has sent the Notice of 32rd AGM and Annual Report on Thursday, August 29, 2024, through electronic mode to the members whose email ID's are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent or with Depository Participants in compliance with he applicable provisions of the Companies Act, 2013; SEBI (LODR) Regulations, 2015; General Circular dated September 25, 2023 read with other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) on the matter and circulars dated October 07, 2023 of Securities and Exchange Board of India (SEBI). The copy of the Annual Report and AGM notice is also available on the Company's website at www.cslfinance.in, website of the Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Instructions for Remote E-voting and E-Voting

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 41(1) of the SEBI(LODR) Regulations, 2015; the Company has provided its members the facility o cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of nagement and Administration) Rules, 2014 and regulation 42 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 the registrar of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 15, 2024 (Sunday) to September 21, 2024 (Saturday) (both days nclusive for the purpose of the 32" AGM of the Company and for determining the entitlement of inal Dividend for the year ended March, 2024.

The Board has recommended the Final Dividend @Rs. 2.5 per share at its Board meeting held on May 15, 2024. The dividend if declared, at the Annual General Meeting will be paid to those directors whose name is appear on the Registrar of Members of the Company at the closure of usiness hours of September 14, 2024 (Record Date).

The details as required under the aforesaid provisions are given under Date and Time of Commencement of remote e-voting: September 17, 2024 at 09:00 a.m.

The remote e-voting end shall end on September 20, 2024 at 05:00 p.m. A person whose name is recorded in the register of members and register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., September 14, 2024 only shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the general meeting. Any person who acquire shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM should know the same procedure for e-voting as

mentioned in the notice of Company. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on September 20,

2024. The e-voting Module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC/OAVM mode, but shall not be entitled to vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote though e-voting at the AGM.

ctronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice o 32" AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) and e-voting user manual for members available at the HELP section of www.evoting.nsdl.com or may write evoting.gn.sdl.com or may write <a href="www - NSDL or Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President - NSDL at evoting@nsdl.co.in

The Company has appointed Ms. Jasvinder Kaur, Practicing Company Secretary (COP: 7700), Ghaziabad as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting pro in a fair and transparent manner.

The results of the resolutions shall be declared within two working days of the conclusion of the AGM. Results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company <u>www.cslfinance.in</u> on Stock Exchanges website at <u>www.bseindia.com.</u> <u>www.nseindia.com</u>and on the website of NSDLi.e., <u>www.evotingindia.com</u>

By order of the Board of Directors of CSL Finance Limite

Date: 30.08.2024 (Company Secretary & Compliance Officer) Place: Noida

The India Cements Limited Registered Office: "Dhun Building", 827, Anna Salai, Chennai 600 002.

Corporate Office: "Coromandel Towers", 93, Santhome High Road, Chennai 600 028. Telephone: 044-28521526 / 28572100 / 400 Fax: 044-28517198

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Seventy-eighth Annual General Meeting (AGM) of the Members of The India Cements Limited will be held on Monday, the 23rd September 2024 at 10.00 A.M. [Indian Standard Time(IST)] through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 5th May 2022, 28th December 2022 and 25th September 2023 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 12th May, 2020, 15th January, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023 and 7th October, 2023 respectively issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), allowing the Companies to conduct the AGM through VC/OAVM, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated 9th August, 2024. The Notice of 78th AGM along with the Explanatory Statement and the Annual Report 2024 have been sent by email on 28.08.2024 to those members who have registered their email addresses with the Company / Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants and no physical/hard copy of the same will be sent by the Company, unless specifically requested. Members may please note that the said documents are also available on the Company's website at www.indiacements.co.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com, from where the said documents can be downloaded. The AGM Notice and the Annual Report can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Link for accessing the Company's Annual Report 2024 is: https://www.indiacements.co.in/uploads/investor/pdf/876529031ANNUVLKJSKSAHFALPEFORT24.pdf

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and the MCA Circulars, the Company is pleased to provide to nembers the facility to cast their vote on resolutions proposed to be considered at the Seventy-eighth Annual General Meeting, by electronic means and the items of business may be transacted through the facility of remote e-voting and e-voting ring the AGM provided by NSDL. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 16.09.2024. The remote e-voting period commences on 19.09.2024 (9:00 A.M. (IST)) and ends on 22.09.2024 (5:00 P.M. (IST)). During this period, shareholders of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 16.09.2024, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM

Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting Members who have not registered their e-mail IDs with the Company/ RTA / Depository Participants (DPs) can cast their vote

through remote e-voting or through the e-voting during the AGM in virtual mode as per the procedures detailed in Note No. 18 of the Notice of the 78th AGM. The detailed procedures for Remote e-voting (prior to AGM), participating in the meeting through VC/OAVM and e-voting

during AGM are explained in Note No.18 of the Notice of 78th AGM and is also available on the website of the Company at

For any information or any query on Remote e-voting and e-voting during AGM, Members may refer to the instructions mentioned under Note No. 18 of the Notice of the 78th AGM sent by email or contact Mr. R. Kalyanaraman, Dy. General Manager, Integrated Registry Management Services Private Limited (RTA), Tel No.: 044-28140801 to 28140803; email: corpserv@integratedindia.in or call on NSDL No.: 022-4886-7000 / 022-2499-7000 or send a request mail to evoting@nsdl.com or contact Mrs. E. Jayashree, Deputy General Manager (Secretarial), Tel. No. 044-28572177, email: nvestor@indiacements.co.in by mentioning their DP & Client ID/Folio No.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after forwarding the notice and holding shares as of the cut-off date i.e.16.09.2024, may obtain the login ID and password by sending an email to investor@indiacements.co.in or corpserv@integratedindia.in or evoting@nsdl.com by mentioning their DP ID and Client ID. However, if you are already registered for e-voting, then you can use your existing user ID and password to login and cast your vote. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password, please refer to the instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM provided in Note No. 18 of the Notice of AGM. Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.

A person, whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to attend the AGM through VC / OAVM and avail the facility of remote voting or e-voting during the AGM.

Smt. P.R. Sudha, Practicing Company Secretary (C.P.No.4468), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-voting and e-voting during AGM in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall submit her report to the Chairman not later than two working days from the conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorized by nim in writing will declare the result forthwith

The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the websites of the Company and NSDL

forthwith. The results shall also be immediately forwarded to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the equity shares of the Company are listed. Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and

Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17.09.2024 to 23.09.2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Members may please note that as the AGM is being conducted through Virtual Mode i.e. VC/OAVM, the facility for

appointment of proxies by the members will not be available for the Seventy-eighth Annual General Meeting. The attendance of Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

: Chennai

: 29.08.2024

Date

For The India Cements Limited S.Sridharan

Company Secretary

ZODIAC CLOTHING COMPANY LIMITED

CIN: L17100MH1984PLC033143 Regd.Office: Nyloc House, 254, D-2, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030 Tel.: 6667 7000 Fax: 6667 7279, Website:www.zodiaconline.com Email id: cosecy@zodiacmtc.com

Notice to Shareholders - Information regarding 40th Annual General Meeting to be held through

Video Conferencing or other Audio Visual Means
NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting ('AGM') of

the members of Zodiac Clothing Company Limited ('the Company') will be held on Friday, September 27, 2024 at 3:00 P.M.(IST) through Video Conference ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the notice of the AGM. The Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time, and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 dated 5" November, 2023 ('SEBI Circulars') has permitted the holding or AGM through VC/OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), Securities and Exchange Board o' India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), read along with MCA circulars and SEBI circulars, the 40th AGM of the Company will be held through VC/OAVM and the members can attend and participate in this AGM through VC/OAVM only. In compliance with the above MCA and SEBI circulars, the Notice of the 40th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sen to all the Members only by email to the email addresses registered with the Company's RTA (KFintech)/Depository Participant(s). The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be made available on the website of the Company viz. <u>www.zodiaconline.com</u> and on the websites of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and Nationa Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

The VC/OAVM facility is being availed by the Company from M/s. KFir Technologies Limited. The instructions for remote e-voting or e-voting during the AGM and attending the AGM through VC/OAVM will be provided in the notice of the AGM and attendance of the Members through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Shareholders will have an opportunity to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM through remote e-voting or through e-voting during the AGM. In this regard, the members holding shares in dematerialized mode/physical mode and who have no registered /updated their email addresses, may get their email addresses. and mobile number registered with their Depository Participants. Company's RTA (KFintech), respectively to receive the Annual Report AGM notice and voting instructions along with user ID and password for the 40th AGM of the Company. In case of any queries, members may write to einward.ris@kfintech.com or call at 1800 309 4001 (Toll free).

For Zodiac Clothing Company Limited

Date: August 30, 2024

Kumar Ive Company Secretary Membership No.: A9600

SANDHAR Growth. Motivation. Better Life

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L74999DL1987PLC029553 Regd. Office: B-6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave New Delhi - 110029 Ph: +91-124-4518900 Fax No.: +91-124-4518912 Website: www.sandhargroup.com; Email: investors@sandhar.in

NOTICE

1. Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of Sandhar Technologies Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 24th September, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Secretarial Standard-2 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), without the physical presence of the members to transact the Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-2024 has been sent through e-mail to all the members whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depositories/ Depository Participants and Link Intime India Private Limited (the "Registrar"). The emailing of all Notices along with the Annual Report has been completed on Thursday, 29th August, 2024. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility at https://instameet.linkintime.co.in/ In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies

- (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the Resolution(s) mentioned in the AGM notice using electronic voting platform provided by the Registrar. In case, the member is unable to cast his/her vote on the facility of electronic voting platform provided by the Registrar, they may exercise their vote through instavote facility during the AGM. The Board has appointed K K Sachdeva & Associates, Company Secretaries, as scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following Members holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 17th September, 2024
- may cast their vote electronically on business as set out in AGM Notice through such Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company afte
- sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 17th September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request to Registrar. However, if you are already registered with the Registrar for remote e-voting then you can use your existing User ID and pass c. The remote e-voting period begins at 09:00 A.M.(IST), on Saturday, the 21s
- September, 2024 and will end at 05:00 P.M.(IST) on Monday, the 23rd September, 2024. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by the Registrar for voting thereafter. d. Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register
- of Beneficial Owner maintained by the Depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through instavote facility during the AGM. Members who have already cast their vote through remote e-voting, prior to the AGM, will be eligible to attend/ participate in the AGM through InstaMeet. However,

they will not be eligible to vote again during the meeting.

- Members may note that the Notice of AGM and the Annual Report for Financial Year 2023-2024 are also available on the Company's website https://sandhargroup.com/ investors/annual-reports as well as on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Registrar at https://instavote.linkintime.co.in.
- In case members have any queries regarding e-voting/ attending the meeting through VC, they may refer the Frequently Asked Questions and InstaVote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan, AVP, E-voting, Link Intime, C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Rd, Surya Nagar, Gandhi Nagar Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra 400083: Tel: 022 - 4918 6000. Members may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, as
- amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company after the 01st April, 2020 shall be taxable in the hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making the payment of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The details about tax rates, documents required for availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM.
- The results on resolutions shall be declared not later than 2 working days from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at www.sandhargroup.com and on the Registrar's website at https://instavote.linkintime.co.in and the same shall be simultaneously communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India
- BOOK CLOSURE: Pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Act and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, the 18th September, 2024 till Tuesday, the 24th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to determine the eligibility of the members for the payment of the final dividend for the Financial Year 2023-2024.

Members are requested to carefully read all the Notes as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through Remote e-voting or through instavote facility during the AGM.

> By order of the Board of Directors For Sandhar Technologies Limited Yashpal Jain

Date: 29th August, 2024 Place: Gurugram, Haryana

Chief Financial Officer and Company Secretary M. No. A13981

Place : Gurugram Date : August 29, 2024